



बरेली, जनसत्ता कंग्रेस के बरेली क्षेत्र के प्रभारी संजय कपूर ने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना से सपा और भाजपा में खलबली मच गई है। भाजपा के नरेंद्र मोदी सहित प्रधानमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे तमाम उम्मीदवारों से राहुल गांधी नश्चय ही बेहतर हैं। इस लिए सपा और भाजपा के लोग बेमतलब की बयानबाजी कर अभी से राहुल गांधी के घेरने की केशाशि करते भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुए राज्यों के चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की लड़ाई के केंद्र में तो कंग्रेस ही रहेगी।

कंग्रेस नेता संजय कपूर ने यहां पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी की खुद की दलितसुपी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने में नहीं है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विशेष रूप से युवाओं की इच्छा है कि उन्हें कंग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से कंग्रेस के युवाओं के लाखों संदेश मिले हैं, जिनमें उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ज्यादा जोर संगठन के चुस्त-दुरूस्त बनाने पर है। इस लिए केंद्रीय कार्यकर्षि से लेकर जिला संगठनों तक की समीक्षा का काम न सरे से शुरू किया गया है। सरकार में शामिल कुछ लोगों के भी संगठन की जम्मेदारियां सौपी जा रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कनून व्यवस्था चौपट होने से लोगों का सपा से मोह भंग हो चुका है। हत्या, लूट, बलात्कार और जमीनों पर कब्जे जैसी वारदातों के तो जैसे बाढ़ आ गई है। राज्य के आम लोगों में खौफ का माहौल है। राज्य सरकार की कनून व्यवस्था के मोर्चे पर नाकामी के कारण ही यहां परिकपरस्त ताकतें सरे उठाने लगी हैं। अखिलेश सरकार के दो साल से कम के कार्यकाल में ही कसौ से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों की समस्याओं के हल करने में भी राज्य सरकार नाकम रही है। पीड़ितों का अब तक शक्ति में बने रहना अपने आप में राज्य सरकार की नाकामी बयां कर रहा है। राज्य सरकार उनके सुरक्षा का भरोसा देने में नाकम रही है जिसकी वजह से वे अपने घरों के लौट नहीं रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोकप्राल बलि और खाद्य सुरक्षा कनून के संसद में पारित होने से देश के लोग खुश हैं। लोकप्राल बलि की तो अण्णा हजारे ने भी प्रशंसा की है। लोकप्राल बनने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। खाद्य सुरक्षा कनून से देश के करोड़ों गरीबों के सीधा लाभ पहुंचेगा। कंग्रेस नेता संजय कपूर ने इस क्षेत्र के आठ जिलों के नगर और जिला अध्यक्षों के कमकज की समीक्षा भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के कजुट होकर चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए। पार्टी के लोगों के खाद्य सुरक्षा कनून और लोकप्राल बलि के बारे में गांवों में सघन प्रचार करने के कहा गया।